





וּכְכַחִּי	אֲנִי	כְּכַחִּי	מֹשֶׁה	אוֹתִי	שָׁלַח	בַּיּוֹם	כְּאֲשֶׁר	חֹזֵק	הַיּוֹם	עוֹרְנִי	11
और-जैसा-बल-मेरा	तब	जैसा-बल-मेरा	मूसा	मुझे	भेजा	दिन-में	जैसा	बलवान	आज	अब-भी-में	
			<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H3117</a>		<a href="#">H2389</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H5750</a>	

וְלָבוֹא:	וְלָזָאת	לְמַלְחָמָה	עָתָה
और-आने-को	और-जाने-को	युद्ध-के-लिए	अब
<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H4421</a>	<a href="#">H6258</a>

मैं अब भी उतना ही शक्तिशाली हूँ जितना शक्तिशाली मैं उस समय था, जब मूसा ने मुझे भेजा था। मैं उन दिनों की तरह अब भी युद्ध करने को तैयार हूँ।

כִּי	הָיוּ	בַּיּוֹם	יְהוָה	דִּבֶּר	אֲשֶׁר-	הָיָה	הִתְרַ	אֶת-	לִי	תָנָה-	וְעָתָה	12
क्योंकि	उस	दिन-में	यहोवा	कहा	जिसके-विषय-में	यह	पहाड़	को	मुझे	दे-	और-अब	
	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1696</a>		<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H2022</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H6258</a>	

יְהוָה	אוֹלֵי	בְּצֻרוֹת	גְּדֻלוֹת	וְעָרִים	שָׁם	עָנְקִים	כִּי-	הָיוּ	בַּיּוֹם	שָׁמַעְתָּ	וְהָיָה
यहोवा	शायद	गढ़	बड़े	और-नगर	वहां	अनाकी	कि-	उस	दिन-में	सुना-था	तू-
<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0194</a>	<a href="#">H1219</a>			<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H6062</a>		<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H8085</a>	

יְהוָה:	דִּבֶּר	כְּאֲשֶׁר	וְהוֹרֵשְׁתִּים	אוֹתִי
यहोवा	कहा	जैसा	और-निकालूंगा	मेरे-साथ
<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1696</a>		<a href="#">H3423</a>	<a href="#">H0854</a>

इसलिये वह पहाड़ी प्रदेश मुझको दे दो जिसे यहोवा ने बहुत पहले उस दिन मुझे देने का वचन दिया था। उस समय तुमको पता चला था कि वहाँ शक्तिशाली अनाकी लोग रहते हैं और नगर बहुत बड़े और अच्छी प्रकार सुरक्षित थे। किन्तु अब संभव है, यहोवा मेरे साथ है और मैं उस प्रदेश को वैसे ही ले सकूँ जैसा यहोवा ने कहा है।”

לְנַחֲלָה:	יָפְנָה	בֶּן-	לְכָלֵב	חֶבְרוֹן	אֶת-	וַיִּתֵּן	יְהוֹשֻׁעַ	וַיְבָרְכֵהוּ	13
विरासत-में	यपुत्रे	पुत्र-	कालेब-को	हेब्रोन	को	और-दिया	यहोशू	और-आशीर्वाद-दिया	
<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H3312</a>		<a href="#">H3612</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H3091</a>	<a href="#">H1288</a>	

यहोशू ने यपुत्रे के पुत्र कालेब को आशीर्वाद दिया। यहोशू ने हेब्रोन नगर को उसके अधिकार में दे दिया

הַיְהוּדָה	הַיּוֹם	עַד	לְנַחֲלָה	הַקְּנִזִּי	יָפְנָה	בֶּן-	לְכָלֵב	חֶבְרוֹן	הַיְהוּדָה-	כִּן	עַל-	14
इस	दिन	तक	विरासत-में	कनिज्जी	यपुत्रे	पुत्र-	कालेब-का	हेब्रोन	हुआ-	कारण	इस-	
<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H7074</a>	<a href="#">H3312</a>		<a href="#">H3612</a>		<a href="#">H1961</a>			

יְשׁוּעָה:	אֱלֹהֵי	יְהוָה	אֶחָדִי	מִלֵּא	אֲשֶׁר	יָעַן
इसाएल	परमेश्वर	यहोवा	पीछे	पूरा-किया	जो	क्योंकि
<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H4390</a>		<a href="#">H3282</a>

और वह नगर अब भी कनिज्जी यपुत्रे के पुत्र कालेब के परिवार का है। वह प्रदेश अब तक उसके लोगों का है क्योंकि, उसने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा मानी और उस पर पूर्ण विश्वास किया।

שָׁקֵטָה	וְהָאָרֶץ	הוּא	בְּעֵינֵינוּ	הַגְּדוֹל	הָאָדָם	אֲרִבְעָקְרִית	לְפָנִים	חֶבְרוֹן	וְשֵׁם	15
शांत-हुआ	और-देश	वह	अनाकियों-में	बड़ा	आदमी	किर्यत-अर्बा	पहले	हेब्रोन	और-नाम	
<a href="#">H8252</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H6062</a>		<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H7153</a>	<a href="#">H6440</a>		<a href="#">H8034</a>	

מִמְלַחְמָה:	פ
युद्ध-से	—
<a href="#">H4421</a>	

पहले इस नगर का नाम किर्यतर्बा था। नगर का नाम अनाकी लोगों के महानतम अर्बा नामक व्यक्ति के नाम पर रखा गया था। इसके बाद, उस देश में शान्ति रही।